

6. Compare and contrast the life-cycle hypothesis and the permanent income hypothesis as theories explaining consumption behaviour over the life span. Evaluate their strengths and weaknesses in explaining real-world consumption patterns.

जीवन काल में उपभोग व्यवहार की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों के रूप में जीवन-चक्र परिकल्पना और स्थायी आय परिकल्पना की तुलना कीजिए और अंतर कीजिए। वास्तविक दुनिया के उपभोग पैटर्न को समझाने में उनकी ताकत और कमजोरियों का मूल्यांकन कीजिए।

7. Discuss the determinants of business fixed investment and their respective impacts on the overall investment climate.

व्यवसाय के निश्चित निवेश के निर्धारकों और समग्र निवेश माहौल पर उनके संबंधित प्रभावों पर चर्चा कीजिए।

8. Write short notes (**any 2**)
- Equilibrium real wage
 - Aggregate demand curve
 - Rational expectations
 - Residential investment
- संक्षिप्त नोट्स लिखिए (कोई भी 2)
- संतुलन वास्तविक मजदूरी
 - समग्र मांग वक्र
 - तर्कसंगत अपेक्षाएँ
 - आवासीय निवेश

(1500)

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 5465

H

Unique Paper Code : 2272202401

Name of the Paper : Intermediate Macroeconomics
I : Foundations of Aggregate
Income Determination

Name of the Course : B.A. (PROG.) Economics :
DSC

Students : SOL Only

Semester : IV

Duration : 3 Hours Maximum Marks : 100/90

Instructions for Candidates

- Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
- Answer any **five** questions.
- All** questions carry equal marks.
- Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

- इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।

P.T.O.

2. किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
3. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
4. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

1. Explain Philips Curve. How does inflation impact unemployment rates according to the Phillips Curve theory, and what are the underlying assumptions?

फिलिप्स कर्व के बारे में समझाइये। फिलिप्स कर्व सिद्धांत के अनुसार मुद्रास्फीति बेरोजगारी दर को कैसे प्रभावित करती है, और अंतर्निहित धारणाएँ क्या हैं?

2. Explain IS and LM curves. Explain how changes in monetary policy influence the IS- LM model.

आईएस और एल एम वक्रों की व्याख्या कीजिए। यह बताएं कि मौद्रिक नीति में परिवर्तन आईएस-एलएम मॉडल को कैसे प्रभावित करते हैं।

3. What is meant by the natural rate of unemployment, and how is it determined? What are the factors effecting it?

बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से क्या तात्पर्य है और यह कैसे निर्धारित की जाती है? इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं?

4. How is the aggregate supply curve derived? What factors influence the shape and position of the aggregate supply curve, and how do these factors relate to the broader economic context?

समग्र आपूर्ति वक्र कैसे प्राप्त होता है? कौन से कारक समग्र आपूर्ति वक्र के आकार और स्थिति को प्रभावित करते हैं, और ये कारक व्यापक आर्थिक संदर्भ से कैसे संबंधित हैं?

5. Find equilibrium level of income and interest rate the following information available for an economy:

$$C = 0.8(Y - T) \dots\dots \text{consumption function}$$

$$T = 1,000 \dots\dots \text{tax revenue}$$

$$I = 800 - 20r \dots\dots \text{investment function}$$

$$G = 1,000 \dots\dots \text{government expenditure}$$

$$(M/P)d = 0.4Y - 40r \dots \text{demand for money}$$

$$M_s = 1,200 \dots\dots \text{supply of money}$$

एक अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित उपलब्ध जानकारी से आय का संतुलन स्तर और ब्याज दर ज्ञात कीजिए :

$$C = 0.8(Y - T) \dots\dots \text{उपभोग फलन}$$

$$T = 1,000 \dots\dots \text{कर राजस्व}$$

$$I = 800 - 20r \dots\dots \text{निवेश फलन}$$

$$G = 1,000 \dots\dots \text{सरकारी व्यय}$$

$$(M/P)d = 0.4Y - 40r \dots \text{धन के लिए मांग}$$

$$M_s = 1,200 \dots\dots \text{धन की आपूर्ति}$$